

द बगि पकिचर: CAATSA : भारत के लिये छूट?

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

हाल ही में अमेरिकी कॉंग्रेस के सम्मलेन में भारत को अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) से छूट देने की बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि इसका मुख्य उद्देश्य रूसी खुफिया एजेंसियों और साइबर हमलों से जुड़ी अन्य संस्थाओं को लक्ष्य करना था। सीनेट और हाउस आर्म्ड सर्विस कमिटी के संयुक्त सम्मलेन की रिपोर्ट में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (NDAA)- 2019 के माध्यम से CAATSA की धारा 231 में संशोधन किया जाएगा।

अधिनियम के मौजूदा संस्करण के विपरीत प्रस्तावित संशोधन में अमेरिकी गठजोड़, सैन्य परिचालन, और संवेदनशील प्रौद्योगिकी की रक्षा हेतु छूट के लिये अब राष्ट्रपति के प्रमाणन की आवश्यकता होगी।

क्या है CAATSA?

1. 2 अगस्त, 2017 को अधिनियम और जनवरी 2018 से लागू इस कानून का उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। यह अधिनियम प्राथमिक रूप से रूसी हतियारों, जैसे कि तेल और गैस उद्योग, रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंधों से संबंधित है।
2. यह अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों (महत्वपूर्ण लेनदेन) से जुड़े व्यक्तियों पर अधिनियम में उल्लिखित 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधों में से कम से कम पाँच लागू करने का अधिकार देता है।
3. इन दो प्रतिबंधों में से एक नरियात लाइसेंस प्रतिबंध है जिसके द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध, दोहरे उपयोग और परमाणु संबंधी वस्तुओं के मामले के नरियात लाइसेंस निलंबित करने के लिए अधिकृत किया गया है।
4. यह स्वीकृत व्यक्तियों के इक्विटी या ऋण में अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगाता है।

भारत के लिये छूट क्यों?

दरअसल अमेरिका का CAATSA भारत और रूस के बीच चल रहे S-400 वायु रक्षा मिसाइल तंत्र के सौदे को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि इस कानून के माध्यम से अमेरिका उन देशों को प्रतिबंधित करता है जिनसे रूस के साथ रक्षा सहयोग के क्षेत्र में समझौता किया है। लेकिन इस कानून में अब भारत सहित इंडोनेशिया और वियतनाम को छूट देने की बात की जा रही है। भारत को मलिन वाली छूट को नमिनलिखित संदर्भों में समझा जा सकता है-

1. ओबामा प्रशासन ने भारत को रक्षा संबंधों में सामरिक भागीदार या स्ट्रैटेजिक पार्टनर का दर्जा प्रदान किया है, लेकिन CAATSA कानून के लागू होने से यह दर्जा अप्रासंगिक होता जा रहा था।
2. अमेरिका ने महसूस किया है कि भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंधों में काफी तेजी आई है। यदि सैन्य या रक्षा उत्पादों के संदर्भ में देखा जाए तो पिछले तीन वर्षों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस तरह मौजूदा CAATSA कानून दोनों देशों के बीच गहरे होते रश्ते के लिये भी बाधक के रूप में देखा जा रहा था।
3. साथ ही भारत के संदर्भ में अमेरिकी हति भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल तंत्र की खरीद को रोकने से कहीं ज़्यादा है।
4. चूंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा सैन्य सामानों का खरीदार है ऐसे में इस कानून के माध्यम से अमेरिका सबसे बड़े बाज़ार से वंचित रह जाता। इसके अतिरिक्त यह कानून अमेरिकी निवेश और घरेलू रक्षा उद्योगों को भी प्रभावित कर रहा था।

छूट के मायने

1. भारत को CAATSA से छूट दिये जाने से भारत और अमेरिकी संबंधों की गहराई का पता चलता है और साथ ही यह इस बात की ओर भी संकेत करती है कि भारत का 'बैकडोर डेपिलोमेसी' काफी सही तरीके से कार्य कर रही है।
2. इस छूट के माध्यम से वह सबसे पहले भारत द्वारा रूस से खरीदे जा रहे S-400 मिसाइल तंत्र की प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। इसके साथ ही रूस समर्थित रक्षा उपकरणों की मरम्मत भी आसान बनाएगा।
3. अमेरिका के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बेल्ट एंड रोड पहल, दक्षिण चीन सागर में चीन का दबदबा, ट्रेड वॉर आदिके रूप में चीन के उभार को रोकने और भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु उसकी प्रतिक्रिया भी मानी जा सकती है।
4. इसके अतिरिक्त यह भारत-अमेरिका संबंधों को सुदृढ़ करने की दृष्टि में अमेरिकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल (Defense technology trade initiative)

- 2012 में नरिमति यह पहल भारत-अमेरिका दोनों देशों के संबंध का केंद्रीय स्तंभ है ।
- DTTI का उद्देश्य रक्षा व्यापार में द्विपक्षीय रश्तियों के साथ-साथ अवसर सृजति करने की ओर भी नेतृत्व का ध्यान नरितर आकृष्ट करना है, ताकि रक्षा उपकरणों का सह-उत्पादन और सह-वकिस संभव हो सके ।
- वर्तमान में दोनों देश इस तंत्र के तहत छः परयोजनाओं पर काम कर रहे हैं ।

टीम दृष्टिइनपुट

नश्कृष

- नश्कृति रूप से यह छूट भारत और अमेरिका की आगामी वार्ता '2+2 डायलॉग' को खुशनुमा और परणाम आधारति बनाएगा ।
- साथ ही यह दोनों देशों के लंबति मुद्दों पर आगे बढ़ने में मदद करेगा ।
- रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल (Defense technology trade initiative-DTTI) पर दोनों देशों को आगे बढ़ाएगी ।
- भारतीय प्रवासयियों के बढ़ते महत्त्व ने भी दोनों देशों के संबंध को प्रगाढ़ करने में योगदान दयिा है जो आगे आने वाले दनिों में और भी मज़बूत होगा ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/countering-america-adversaries-through-sanctions-act>

